

प्रेस विज्ञप्ति

जयपुर मेट्रो ने ऊर्जा संरक्षण एवं स्वस्थ बनने का नया मंत्र दिया

20 सितम्बर, 2015 जयपुर। जयपुर मेट्रो ने बिजली बचाओं देश बनाओ अभियान से अपने यात्रियों को जोड़ते हुए अधिक से अधिक सीढ़ियों का उपयोग कर कैलोरी जलाओं स्वस्थ बनो का नया मंत्र दिया। जयपुर मेट्रो के सभी स्टेशनों पर भूतल से प्लेटफार्म तक पहुचने के लिए सामान्यतया भूतल से कॉनकोर्स तक करीब 45 एवं कॉनकोर्स से प्लेटफार्म तक करीब 50 सीढ़िया, जो दोनो ही तरफ से प्रवेश एवं निकास के लिए 6 इंच की ऊचाई में उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी यात्रियों एवं विशेषतः विशेष योग्यजनों, वरिष्ठ नागरिकों एवं बीमार व्यक्तियों के लिए यात्री संचालन की पूरी अवधि में लिफ्टे भी उपब्लध है। यात्री भार को देखते हुए भूतल से प्लेटफार्म तक पहुचने के लिए अधिकतर स्टेशनों पर एस्केलेटर का भी प्रावधान है जो स्टेशन नियंत्रकों द्वारा चलाये/बंद किये जाते है। जयपुर मेट्रो के सभी 9 स्टेशनों पर कुल 37 एस्केलेटर एवं 40 लिफ्ट/ऐलीवेटर लगाये गये है।

परिचालन एवं प्रणाली निदेशक सी.एस. जीनगर ने बताया मेट्रो स्टेशनों पर बनी सरल एवं सुगम सीढ़ियों, विशेषत उतरने के समय इनका उपयोग करने से लिफ्ट एवं एस्केलेटर में खर्च होने वाली बिजली की बचत के साथ यात्रियों को स्वस्थ बनने एवं अपनी अनावश्यक कैलोरी जलाने में भी सहायता मिलेगी। चिकित्सा विज्ञान से यह प्रमाणित है कि अधिक से अधिक सीढ़ियों का उपयोग करने से कई बिमारियों से छुटकारा एवं नयी बिमारीयों को लगने से रोका जा सकता है।

जयपुर मेट्रो के सभी 9 स्टेशनों के प्रवेश/निकास गेटो, पेड एरिया एवं प्लेटफार्मो पर कैलोरी जलाओ, बिजली बचाओं, स्वस्थ बनो, देश बनाओं, कृपया सीढ़िया का उपयोग करे को दर्शाने वाले पोस्टर लगाये गये। (पोस्टर सलंगन है।)
सलंगन पोस्टर

जनसंपर्क अधिकारी